



ONGC News, 16.08.2020 Print

भारत पेट्रोलियम ने पूंजी निवेश लक्ष्य घटाया

मुंबई। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 से उपजे हालातों के चलते उसने 2020-21 के लिए अपना पूंजीगत निवेश लक्ष्य घटाकर 8,000 करोड़ रुपये कर दिया है। पहले कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में 12,500 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की योजना बनाई थी। कंपनी ने गुरुवार को जानकारी दी थी कि 30 जून को समाप्त तिमाही में उसकी शुद्ध आय दोगुनी होकर 2,076 करोड़ रुपये रही।

गेल का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 80% घटा

नई दिल्ली। सरकारी गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का शुद्ध लाभ जून तिमाही में 80 प्रतिशत घटकर 256 करोड़ रुपये रह गया। इसका कारण प्राकृतिक गैस और पेट्रोरसायन के विपणन में हुआ नुकसान है। कंपनी ने बताया कि उसे साल भर पहले की इसी तिमाही में 1,288 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

GAIL included in FTSE4 Good Index Series	Hindustan Times	6	Bureau	Neutral
--	-----------------	---	--------	---------

GAIL included in FTSE4 Good Index Series

GAIL (India) Limited has been included in the prestigious international FTSE4 Good Index Series for the fourth time in a row, affirming the company's strong commitment towards Environmental, Social and Governance (ESG) practices in the Oil & Gas Sector.

Created by the global index and data provider FTSE Russell, the FTSE4 Good Index Series is designed to measure the performance of companies demonstrating strong ESG practices.

GAIL CMD Manoj Jain said, "I am pleased that GAIL (India) Limited has been included in the FTSE 4 Good Index Series for the fourth year in a row. This is a proof of our commitment towards sustainable development while also doing business responsibly and focusing on our stakeholders."

Hit by Covid disruptions, BPCL trims FY21 capex plans to Rs8k cr	Millennium Post	11	Bureau	Neutral
--	-----------------	----	--------	---------

Hit by Covid disruptions, BPCL trims FY21 capex plans to ₹8K cr

MUMBAI: Privatisation-bound national refiner Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) on Friday said due to the pandemic-driven disruptions, it has scaled down capex plans for FY21 to Rs 8,000 crore from Rs 12,500 crore originally planned as projects are stuck due to unavailability of skilled manpower.

The company on Thursday reported a doubling of its net income at Rs 2,076 crore in the June quarter boosted by an inventory gain of Rs 565 crore and a marketing gain of Rs 1,003 crore.

Bharat Petroleum, however, earned 39 cents on turning every barrel of crude oil into fuel as compared to a gross refining margin (GRM) of \$2.81 a barrel in the same period of the previous year.

The bottomline would have been higher but for the refinery loss Rs 438 crore due to the massive over 35 per cent drop in demand, N Vijayagopal, the executive director in charge of finance, told reporters in a post-earnings concall. PTI